

# पत्रकारिता की आड़ में चला रहा था नकली पान मसाला फैक्ट्री



Publish Date: Tue, 31 Aug 2021 02:07 AM (IST) Author: **Jagran**

- पुलिस ने श्याम नगर में छापा मार मुख्य आरोपित सहित तीन को किया गिरफ्तार - एसएनके व विमल के

- पुलिस ने श्याम नगर में छापा मार मुख्य आरोपित सहित तीन को किया गिरफ्तार

- एसएनके व विमल के नाम से बन रहा था पान मसाला, लाखों का माल जब्त

जागरण संवाददाता, कानपुर : पत्रकारिता का चोला ओढ़कर नकली पान मसाला फैक्ट्री संचालित करने वाले को क्राइम ब्रांच की टीम ने उसके दो सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपित एसएनके पान मसाला के नाम से नकली माल तैयार करके बाजार में बेचते थे। इस प्रकरण में एसएनके व विमल पान मसाला की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने लाखों का माल बरामद किया है।

लंबे समय से नकली पान मसाला बनाने की शिकायत पर रविवार रात क्राइम ब्रांच व चकेरी पुलिस ने श्याम नगर में अंकित दीक्षित के घर दबिश दी। डीसीपी क्राइम सलमान ताज पाटिल के मुताबिक अंकित ने खुद को न्यूज टीवी चैनल का पत्रकार बताकर रौब गांठने की कोशिश की और जब पुलिस ने पड़ताल की तो वह फर्जी निकला। उसके पास से न्यूज टीवी चैनल की फर्जी आइडी, आइकार्ड और माइक बरामद हुआ। पुलिस ने अंकित से पूछताछ करके केडीए कालोनी रामपुरम में छापा मारकर नकली एसएनके और विमल पान मसाला की बड़ी खेप पकड़ी, जोकि बाजार में खपाने के लिए तैयार की गई थी। इसके बाद पुलिस ने अंकित के सहयोगी गोविंद नगर निवासी संतोष सहगल और बर्बा के दशरथ को भी गिरफ्तार कर लिया।

-----

यह हुई बरामदगी

पुलिस ने नकली पान मसाला फैक्ट्री से एक बंडल विमल पान मसाला का रैपर, चार बंडल एसएनके पान मसाला का रैपर, 183 पैकेट विमल मसाला, 585 पैकेट एसएनके पान मसाला, 613 पैकेट तंबाकू, एक बोरी कटी सुपारी, एक बोरी में बना माल, एक मसाला मिक्सर मशीन, 9120 रुपये, तीन फोन, एक प्रेस आइडी व एक कार बरामद की है।

----

पान मसाला कंपनियों ने दी तहरीर

एसएनके कंपनी के पवन गुप्ता और विमल गुटखा की तरफ से बीपी श्रीवास्तव ने चकेरी थाने में तहरीर दी। चकेरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। क्राइम ब्रांच की टीम रैकेट में शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रही है।

Source: <https://www.jagran.com/Uttar-Pradesh/Kanpur-City-Fake-Pan-Masala-Factory-Was-Running-Under-The-Guise-Of-Journalism-21977071.Html>